



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 198] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 7, 1977/अश्विन 15, 1899

No. 198] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 7, 1977/ASVINA 15, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF LABOUR

RESOLUTION

New Delhi, the 7th October 1977

No. U-23013(10)/77-LW.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 5 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a committee to go into the question of working of Contract Labour System in Chromite, Mica, Magnesite, Gypsum and Fire-clay mines in the country.

2 The composition of the Committee and its terms of reference will be as under:—

Composition

- (1) Shri S Das Gupta, General Secretary, Indian National Mine Workers' Federation, Dhanbad.
- (2) Shri U N Prasad, General Secretary, Panposh Mazdoor Union P O Rourkela, Distt Sundergarh (Orissa)
- (3) Shri Prakash Roy, General Secretary, Samyukta Khadan Mazdoor Sangh (AITUC) Chikla, P O Rajnandgam, Distt Durg (M.P.)
Alternate—Shri S K Sanyal (AITUC)
- (4) Shri T R Goenka, Goenka Minerals Limited, P B No 271, Nagpur
- (5) Shri S. S Manjrekar, Divisional Manager (Tata Mines), Noamandi (Bihar)
- (6) Shri N P Dhusia, General Manager, Steel Authority of India Limited, New Delhi.

(7) Shri K. D. Gandhi, Under Secretary, Ministry of Labour, New Delhi—
Convener,

Terms of Reference

- (1) To identify jobs where contract labour is being employed in the above group of mines in the country;
- (2) To recommend operations where the Contract Labour System should be abolished;
- (3) To report whether the welfare amenities provided for contract labour in the above group of mines in the country are in accordance with the requirements of the Law

3. The Headquarters of the Committee will be at New Delhi. The Committee would endeavour to submit its report within four to six months

D. BANDYOPADHYAY,

Chairman, Central Advisory Contract Labour Board and Jt Secy.

ORDER

Copies of the Resolution may be sent to.

1. All Members of the Central Advisory Contract Labour Board
2. The Ministry of Steel & Mines (Department of Mines—Shri M. M. Bakshi, Under Secretary) New Delhi
3. The Ministry of Steel & Mines (Department of Steel—B S Bhatnagar, Deputy Secretary) New Delhi
4. The Ministry of Energy (Department of Coal—Shri C. D. Tripathi, Director) New Delhi.
5. The Steel Authority of India Limited, New Delhi.
6. Shri S. S. Manjrekar, Divisional Manager (Tata Mines) Noamandi, Bihar

Ordered that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India Extra ordinary.

D. BANDYOPADHYAY,

Chairman, Central Advisory Contract Labour Board and Jt Secy.

श्रम मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 1977

सं० यू०-23013 (10)/77.—एल० डब्ल्यू —ठेका श्रम (विनियम और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा-5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय ठेका श्रमिक सलाहकार बोर्ड एक समिति गठित करता है। जो देश में क्रोमाइट, अभ्रक, मैंगनीज, जिप्सम और अग्निसहमिट्टी की खानों में ठेका श्रम पद्धति के प्रचालन के प्रश्न की जांच करेगी।

2. समिति का गठन और इसके विचारार्थ विषय इस प्रकार होंगे :—

गठन

- (1) श्री एस० दास गुप्ता, महासचिव, इण्डियन नेशनल माइन्स वर्कर्स फेडरेशन, धनबाद।
- (2) श्री यू० एन० प्रसाद, महामंत्री, पनपोश मजदूर यूनियन, डाकघर राउरकेला, जिला सुन्दरगढ़ (उड़ीसा)।
- (3) श्री प्रकाश राय, महामंत्री, संयुक्त खदान मजदूर संघ (ए० आई० टी० यू० सी०) चिकला, डाकघर राजनन्दगाव, जिला दुर्ग (मध्य प्रदेश)
ऐवजी—श्री एस० के० सन्याल (ए० आई० टी० यू० सी०)।

- (4) श्री टी० आर० गोइन्का, गोइन्का मिनरल्स लिमिटेड, पोस्ट बॉक्स नं० 271, नागपुर।
- (5) श्री एस० एस० मुजरेकर, डिविजनल मैनेजर (टाटा माइन्स), नौमण्डी (बिहार)।
- (6) श्री एन० पी० धुसिया महाप्रबन्धक, स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड; नई दिल्ली।
- (7) श्री के० डी० गांधी, अव्वर सचिव, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली संयोजक।

विचारार्थ विषय

- (1) देश में उपर्युक्त खानों में उन कार्यों का पता लगाना जहाँ ठेका श्रमिकों को नियोजित किया जा रहा है ;
- (2) ऐसे कार्यों की सिफारिश करना जहाँ ठेका श्रम पद्धति समाप्त की जानी चाहिए ;
- (3) यह बताना कि क्या देश में उपर्युक्त खानों में ठेका श्रमिकों के लिए व्यवस्थित कल्याण सुविधाएँ कानून की अपेक्षाओं के अनुसार है।

3. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। समिति चार से छ माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रयास करेगी।

डी० बंशीपाध्याय,
अध्यक्ष, केन्द्रीय ठेका श्रमिक सलाहकार
बोर्ड एवं संयुक्त सचिव।

आदेश

संकल्प की प्रतियाँ निम्नलिखित को भेजी जाएं -

1. केन्द्रीय ठेका श्रमिक सलाहकार बोर्ड के सभी सदस्य।
2. इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग—श्री एम० एस० बक्षी, अव्वर सचिव), नई दिल्ली।
3. इस्पात और खान मंत्रालय (इस्पात विभाग—श्री बी० एस० भटनागर, उप सचिव), नई दिल्ली।
4. ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग—श्री सी० डी० त्रिपाठी, निदेशक), नई दिल्ली।
5. स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली।
6. श्री एस० एस० मुजरेकर, डिविजनल मैनेजर (टाटा खान), नौमण्डी, बिहार।

आवेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की जाए।

डी० बंशीपाध्याय,
अध्यक्ष, केन्द्रीय ठेका श्रमिक
सलाहकार बोर्ड एवं संयुक्त सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टों रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

